



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2010/पौष 23, 1931

No. 68]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2010/PAUSA 23, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2010

का.आ. 79(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 18.800 कि.मी. से 20.500 कि.मी. तक के भू-खण्ड (फरीदाबाद-सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भूमि अर्जन अधिकारी (शहरी सम्पदा), फरीदाबाद को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकांश किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 18.800 कि.मी. से 20.500 कि.मी. तक (फरीदाबाद सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	जिले का नाम	तहसील/तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	फरीदाबाद	फरीदाबाद	(1) सराय ख्वाजा	26//3/1	निजी	गैर-कृषि	126.45
				26//8/2	निजी	गैर-कृषि	556.36
				26//13/1/1	निजी	गैर-कृषि	177.03
				26//23/1	निजी	गैर-कृषि	429.92

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				36/3/2/1	निजी	गैर-कृषि	303.47
		(2) अदंगपुर		1631/1	निजी	गैर-कृषि	295.08
				1631/2	निजी	गैर-कृषि	42.16
				1631/3	निजी	गैर-कृषि	252.92
				1631/4	निजी	गैर-कृषि	84.31
				1631/5	निजी	गैर-कृषि	337.23

[फा. सं. भा. रा. प्रा./महाप्रबंधक (उ. 1) बदरपुर फ्लाईओवर]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2010

S. O. 79. (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/maintenance, management and operation of National Highway No. 2, on the stretch of land from Km 18.800 to Km 20.500 (Faridabad Section) in District Faridabad, in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Land Acquisition Officer (Urban Estate) Faridabad, in writing, and shall set out the ground thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 18.800 to Km. 20.500 (Faridabad Section) of National Highway No. 2 in the State of Haryana.

Sl. No.	Name of the District	Name of the Tehsil/Taluka	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Faridabad	Faridabad	(1) Sarai Khawaja	26/3/1	Private	Non-Agriculture	126.45
				26/8/2	Private	Non-Agriculture	556.36
				26/13/1/1	Private	Non-Agriculture	177.03
				26/23/1	Private	Non-Agriculture	429.92
				36/3/2/1	Private	Non-Agriculture	303.47
			(2) Anangpur	1631/1	Private	Non-Agriculture	295.08
				1631/2	Private	Non-Agriculture	42.16
				1631/3	Private	Non-Agriculture	252.92
				1631/4	Private	Non-Agriculture	84.31
				1631/5	Private	Non-Agriculture	337.23

[F. No. NHA/GM (N-1) Badarpur Flyover]

S.S. GULIA, Dy. Secy.